

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

53AE 213507

गह जनरल स्टाम्प पेपर सन् १९६८
रेखीडॉन्डिप्रिंट वैलेन्स रसोसिल्ड
फॉर्म नं. ३०५८५३
कार्ल्स्टाड अमेरिका के साथ सल्लन है

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान उपायक
कार्यालय डिस्ट्री रोलस्ट्रर
एन्ने सोसाइटीज ट्राइ विट्स
वर्दन चौक सन्मान
३०/११/२०२३

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार कर्मा सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ मण्डल लखनऊ।

निर्णय

संस्था सनब्रीज वन अपार्टमेन्ट रेजीडेंशियल वेलफेर एसोसिएशन, सनब्रीज वन अपार्टमेन्ट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ का पंजीकरण सो०फै०ज०भ० १३६० के प्राविधिकों के तहत पत्रावती सं० १/LUC/0045849 पंजीकरण सं० LUC/13760/2021-2022 पर दिनांक ०३.०३.२०२२ को श्री संदीप कुमार पाण्डेय के आवेदन पर किया गया है।

दिनांक २८.०४.२०२२ को श्री विनय कुमार वर्मा द्वारा भी अधेस की हेसियत से जांच के नए पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक ०२.०५.२०२२ को श्री दिनेव कुमार वर्मा द्वारा अपना शिकायती पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए यह उल्लेख किया गया कि उक्त संस्था का कतिपय व्यक्तियों द्वारा अविधिक रूप से गठन कर इस कार्यालय को भ्रष्ट कर गलत प्रपत्रों पर पंजीकरण करा लिया गया है। श्री विनय कुमार वर्मा की उक्त शिकायती पत्र की छायाप्रति श्री संदीप कुमार पाण्डेय को कार्यालय पत्र संख्या-३९९ दिनांक ०४.०५.२०२२ के माध्यम से प्रेषित करते हुए पत्र में उल्लिखित शिकायती विन्दुओं पर विन्दुवार आख्या कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यालय के उपरोक्त नोटिस पत्र दिनांक ०४.०५.२०२२ के क्रम में श्री संदीप कुमार पाण्डे, सचिव ने अपने पत्र दिनांक १८.०५.२०२२ के माध्यम से श्री विनय कुमार वर्मा के शिकायती पत्र दिनांक ०२.०५.२०२२ का विन्दुवार उत्तर मय संलग्नक प्रस्तुत किया गया।

श्री विनय कुमार वर्मा के शिकायती पत्र दिनांक ०२.०५.२०२२ के क्रम में कार्यालय के नोटिस पत्र दिनांक ०४.०५.२०२२ एवं तक्कम में श्री संदीप कुमार पाण्डेय, सचिव द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक १८.०५.२०२२ के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या ६११-६१२ दिनांक २४.०५.२०२२ द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक १४.०६.२०२२ की तिथि नियत करते हुए पक्षों को उक्त निधि द्वारा उपलिखित होकर आवेदन करने के समर्थन में साझ्य जादि प्रस्तुत करने हेतु निर्दिशित किया गया। हत्याकाल कार्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न तिथियों में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन एक-दुसरे पक्षों को प्राप्त कराये गए तथा उन्हें सुना गया तथा पक्षकारों की सहमति से प्रकरण में दिनांक १३.१२.२०२२ को सुनवाई पूर्ण की गयी।

पक्षकारों द्वारा अपने-अपने अभिकथन के समर्थन में प्रस्तुत तथ्यों/साझ्यों तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संस्था "सनब्रीज वन अपार्टमेन्ट रेजीडेंशियल वेलफेर एसोसिएशन, सनब्रीज वन अपार्टमेन्ट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ", का कार्यालय द्वारा किये गए पंजीकरण दिनांक ०८.०३.२०२२ के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री विनय वर्मा द्वारा यह आरोप लगाये गए हैं कि संस्था का पंजीकरण श्री संदीप कुमार पाण्डेय व अन्य द्वारा अपार्टमेन्ट एक्ट, २०१० के प्राविधिकों के अनुसार संस्था के गठन के लिए निर्धारित संख्या में सदस्य न बनाकर, मनमाने और फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर कार्यालय को भ्रष्ट करते हुए संस्था का पंजीकरण करा लिया है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को संज्ञान में लेकर संस्था का पंजीकरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री विनय वर्मा की उक्त शिकायत के सम्बन्ध में संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में यह अवगत कराया गया कि संस्था "सनब्रीज वन अपार्टमेन्ट रेजीडेंशियल वेलफेर एसोसिएशन, सनब्रीज वन अपार्टमेन्ट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ" का पंजीकरण कार्यालय में जरूरी प्रपत्रों को जमा करके एवं सभी आपत्तियों पर स्पष्टीकरण देने के पश्चात हुआ है एवं सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पूर्णतया विधिसम्मत तथा एक्ट साधारण सभा दिनांक ३०.०१.२०२२ में उपरिथित थी, सार्थक आपत्ति कर रहे हैं जिससे कि विरुद्ध इसकी आड़ में वेलफेर

१ सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सम्पादक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
पर्सन सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

प्रतिलिपि का इस प्राप्ति संदर्भ में विवरण के अनुसार उक्त निवासी नाम सहित द्वारा दर्शाया गया है। जिसमें सन्दर्भ "सनब्रीज वन अपार्टमेंट बैलफेर एसोसिएशन, सनब्रीज वन अपार्टमेंट, बी०बी०डी० ग्रीन विहार किलो मीटर से भी नहीं है।

श्री विनय कुमार वर्मा, शिक्षापत्रकर्ता, द्वारा संस्था "सनब्रीज वन अपार्टमेंट रेजीडेंशियल वेलफेर एसोसिएशन, सनब्रीज वन अपार्टमेंट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ" के गठन एवं उसके पंजीकरण को लेकर अपार्टमेंट के निवासी श्री विनय कुमार वर्मा द्वारा विवाद किया गया है।

1. कि उ० प्र० अपार्टमेंट एकट, 2010 की धारा 14(2) के तहत एसोसिएशन के गठन किये जाने का दायित्व प्रोमोटर तथा अपार्टमेंट स्वामियों का संयुक्त रूप से है, जिसके तहत निवासियों द्वारा प्रोमोटर मेसर्स विराज कंस्ट्रक्शन्स को दिनांक 21.12.2021 को एक माह की अवधि का नोटिस भेजा गया था। उक्त नोटिस के जवाब में प्रोमोटर द्वारा श्री विनय कुमार वर्मा (शिक्षापत्रकर्ता) को आर०डलू० ए० के गठन हेतु नामित करते हुए दिनांक 28.01.2022 को संघ बनाने के लिए अधिकार-पत्र प्रदान किया गया था, जबकि उनके द्वारा संघ के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व ही विष्क्षी श्री लाल बच्चन राय, श्री संदीप कुगार पाण्डेय व अन्य द्वारा स्वामूल तरीके से दिनांक 30.01.2022 को ही अधिकारिक रूप से कार्यकारणी का गठन करके गलत तरीके से संस्था "सनब्रीज वन अपार्टमेंट रेजीडेंशियल वेलफेर एसोसिएशन, पता फ्लैट सं० 703, टावर -12 सनब्रीज वन अपार्टमेंट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ" का पंजीकरण करवा लिया गया।

2. यह कि सनब्रीज वन अपार्टमेंट में वर्तमान में कुल 776 फ्लैट्स अवस्थित हैं जिनमें कुल आवंटित/विकीर्त प्लैट्स की संख्या 719 है जिनमें 533 अध्यासी निवास कर रहे हैं, अर्थात् उक्त आर०डलू० ए० के गठन के लिए नियमानुसार 533 सदस्य होने चाहिए, जिसके विपरीत उक्त पंजीकृत संस्था की रूची में मात्र 70 सदय दर्शाए गए हैं, जो साधारण सभा के गठन के लिए आवश्यक संख्या से बहुत ही कम है, और कम से कम 60 प्रतिशत होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त दिखाई गयी सदस्यों की संख्या गलत तरीके से बढ़ाकर दिखाया गया है और सही प्रकार से सदस्य नहीं बनाये गए हैं।

3. यह कि उ० प्र० अपार्टमेंट एकट, 2010 के अंतर्गत आर०डलू० ए० का गठन अपार्टमेंट स्वामियों के हित संरक्षण के लिए किया जाएगा जबकि संस्था "सनब्रीज वन अपार्टमेंट रेजीडेंशियल वेलफेर एसोसिएशन, पता फ्लैट सं० 703, टावर -12 सनब्रीज वन अपार्टमेंट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ" का गठन आवासीय परिसर का हित संरक्षण के लिए किया गया है जैसा की उक्त संस्था के नाम में लिखे शब्द "रेजीडेंशियल वेलफेर" से विदित होता है। इस प्रकार उक्त संस्था का नाम पंजीकरण हेतु गलत है और उ० प्र० अपार्टमेंट एकट, 2010 की नियमावली का उल्लंघन है।

4. यह कि संस्था के नाम में "सनब्रीज वन" अपार्टमेंट लिखा गया है जबकि प्रमोटर/बिल्डर द्वारा "सनब्रीज-1" अपार्टमेंट का निर्माण किया गया है, अतः उसी अपार्टमेंट में गलत नाम से पंजीकरण कराया गया है।

5. यह कि पंजीकृत संस्था के पते के लिए संस्था के तथाकथित अध्यक्ष के व्यक्तिगत फ्लैट के पते का प्रयोग किया गया है, जो अनुचित है।

सत्य प्रतिलिपि

2

प्रधान सहायक
कार्यालय डिटा रजिस्ट्रार
एम्स सोसाइटीज तथा विट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

AV
30/11/2023

म. यह कि अपार्टमेंट के ०१ गठन में द्वारा दिए गए दिनांक २६.११.२०८८ को ०४ दिक्षिण वर्ष दिनांक ३०.१२.२०८८ के समानांतर तिथि के द्वारा दिया गया गठन की प्रक्रिया ली गयी है, किन्तु विधीय द्वारा अधिसियों द्वारा ही संस्था का पंजीकरण कर दिया गया।

७. यह कि पंजीकृत संस्था की प्रबंधकारिणी समिति/वोर्स ऑफ मैनेजमेंट में श्री लाल वरन राय, अध्यक्ष, श्री संदीप कुमार पाण्डेय, सचिव, श्री रजत श्रीवारसत्व, कोषाध्यक्ष एवं संटरस कम्पनी आकाश शर्मा, ली० एम० श्रीवारसत्व के नाम से आज तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है इसके बावजूद उनके द्वारा संस्था की प्रबंधकारिणी में पद प्राप्त कर लिया गया है और अधिविक रूप से संस्था का पंजीकरण कर लिया गया है। उक्त लोग सन्दीज-१ अपार्टमेंट के महज आवंटी हैं।

८. यह की उक्त विधीय द्वारा संस्था के गठन के सम्बन्ध में प्रमोटर मेसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन्स को कोई सूचना भी नहीं दी गयी और न ही संस्था के गठन के लिए प्रमोटर का सहयोग लिया गया, जबकि स्थानीय प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद राघ बनाने का दायित्व प्रोमोटर का होता है।

९. यह की उक्त अध्यक्ष द्वारा अपार्टमेंट के अधिसायियों से नगद में धन लेकर कोई प्राप्ति रसीद भी नहीं दी गयी है और न ही उनको साधारण सभा की पंजीकृत सूची में सदस्य बनाया गया है, इस प्रकार उक्त अध्यक्ष द्वारा वित्तीय हेरा-फेरी की गयी है।

१०. यह कि कार्यालय के पत्र संख्या-१२४१ दिनांक ०४.०७.२०२२ द्वारा संस्था "सन्दीज वन अपार्टमेंट रेजीडेंशियल वेलफेर एसोसिएशन" लखनऊ के पंजीकरण को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा १२(डी) के अंतर्गत निरस्त करने हतु नोटिस निर्णीत किया जा चुका है।

अतः संस्था द्वारा अपार्टमेंट एकट, २०१० का उत्तराधिन करते हुए मनमान तरीके से कार्यपाही दिखाते हुए गलत प्रपत्रों के आधार पर संस्था को पंजीकृत कर लिया गया, इस कारण उक्त संस्था के पंजीकरण को निरस्त किया जाना उचित होगा।

श्री विनय कुमार वर्मा, शिकायतकर्ता के उपरोक्त शिकायती बिन्दुओं के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार पाण्डेय, सचिव ने संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया कि-

१. यह कि प्रोमोटर मेसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन्स द्वारा आर० डब्लू० ए० के गठन में पहल न करने एवं इस सम्बन्ध में उनके रवैये को देखते हुए आर० डब्लू० ए० के गठन हेतु निवासियों द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में बिल्डर से औपचारिक/अनौपचारिक निवेदन भी किया गया तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में बिल्डर को दिनांक २९.११.२०२२ को एक नोटिस भी दिया गया, किन्तु उक्त नोटिस पर बिल्डर की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया न आने पर अंततः दिनांक १२.१२.२०२१ को आयोजित साधारण सभा में आर० डब्लू० ए० के गठन का निश्चय किया गया, जिसकी नोटिस बिल्डर को दिनांक २१.१२.२०२१ को तथा ईमेल दिनांक २८.०१.२०२२ के माध्यम से दी गयी। यह कि शिकायतकर्ता श्री विनय वर्मा स्वयं भी उक्त बैठक उपस्थित थे एवं उनके हस्ताक्षर रजिस्टर के क्रम संख्या ३७ पर अंकित हैं।

२. यह कि बिल्डर से निरन्तर अनुरोध के पश्चात् भी कला प्रदत्त आवेदियों की सूची कभी भी उपलब्ध नहीं कराई गयी तथा बिल्डर द्वारा आर० डब्लू० ए० के गठन के लिए कोई पहल और सहयोग ना करने पर निवासियों ने आर० डब्लू०

सत्य प्रतिलिपि

३

प्रधान सहयोग
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रर
पर्स सोसाइटीज तथा विदेश
लखनऊ बृहन लखनऊ

३०/११२३

१० वं अन्त में लोटके से १० सालांचा रात्रि की लोटके कीपक दिनांक ३०.०१.२०२१, ११.११.२०२१, १२.१२.२०२१ एवं ३०.०१.२०२२ में आयोजित की जाना दिनांक ३०.०१.२०२२ की आयोजित केलक में १०३ सदस्य उपस्थित है। रागत सदस्य साधारण सभा में उपरिखल द्वारा जारी कर संगव नहीं है, इस शिक्षि में दिनांक ३०.०१.२०२२ की साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या को ही कोरम माना गया। सभी उपस्थित सदस्यों के नाम रजिस्टर में दर्ज है किन्तु विभाग के वैबराइट पर उक्त विवरण दर्ज करते समय आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी तत्समय उपलब्ध न होने के कारण भाव ७० सदय दर्शाए गए एवं इसमें विसंगतियां लिपिकीय ब्रूटिवश मात्र है। यह कि उक्त रजिस्टर की छापाप्रति पंजीकरण के समय आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था एवं पुनः अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

३. यह कि दिनांक ३०.०१.२०२२ को सभी को हर संभव तरीके से सूचित कर खुले पार्क में आयोजित साधारण सभा में लोकतान्त्रिक एवं पारदर्शी तरीके से आर० डब्लू० ४० का नटन किया गया, जिसकी खबर मुख्य अखबारों में भी प्रकाशित की गयी। यह कि बिल्डर को भी ईमेल दिनांक २६.०१.२०२२ के द्वारा साधारण सभा दिनांक ३०.०१.२०२२ की मीटिंग की सूचना दी गयी तथा उनसे अपने प्रतिनिधि को भेजने का अनुरोध किया गया, पर उन्होंने उसपर ध्यान नहीं दिया।

४. यह कि चुनाव कार्यकारिणी का गठन समस्त उपस्थित आवटियों द्वारा किया गया था जिसका विवरण चुनाव दिनांक ३०.०१.२०२२ के मिनटस में दर्ज है तथा उपस्थित रजिस्टर के सीरियल नंबर ६५ पर चुनाव समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष गुप्ता का नाम अंकित है। यह कि आरोप लगाने वाले भी उस साधारण सभा में आमंत्रित थे किन्तु उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु उक्त बैठक में अनुपस्थित रहना बेहतर समझा।

५. यह कि प्रोमोटर द्वारा कोई भी स्थान आर० डब्लू० ४० केलिए आरक्षित/आवटित नहीं किये जाने के कारण विवश होकर आर० डब्लू० ४० का पता अध्यक्ष के पार का दिया गया, जो अपार्टमेंट परिसर का ही है।

६. यह कि सभी सदस्यों को मेम्बरशिप फीस की रसीद दी गयी है, तथा संस्था का आधिकारिक बैंक खाता भी मौजूद है। शिकायतकर्ताओं में से किसी ने भी सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया है, जिस भी सदस्य ने शुल्क जमा किया है सबको रसीद दी गयी है।

७. यह कि संस्था "सनग्रीज वन अपार्टमेंट रेजीडेंसियल वैलफेर एसोसिएशन" का पंजीकरण कार्यालय में जरूरी प्रपत्रों को जमा करके एवं सभी आपत्तियों पर स्पष्टीकरण देने के पश्चात हुआ है, तथा बिल्डर विभिन्न मदों में जमा धनराशि का गबन करने, अधूरे कार्यों को पूरा न करने एवं किसी भी प्रकार के जवाबदेही से बचने के उद्देश्य से विधिक रूप से गठित सोसाइटी को मान्यता देने से इनकार कर रहा है तथा श्री विनय कुमार वर्मा एवं अन्य शिकायती सदस्यों के बिल्डर के साथ या तो कारोबारी सम्बन्ध हैं या इनके परिवार के सदस्य बिल्डर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसी कारणवश इस कार्यालय में बार-बार तथ्यहीन शिकायत कर रहे हैं।

८. यह कि निवासियों के लगातार अनुरोध के बावजूद बिल्डर ने आर० डब्लू० ४० बनाने का कोई पहल ना कर प्रतिरोध किया गया, जिससे विवश होकर यहाँ के निवासियों ने लोकतान्त्रिक एवं पारदर्शी ढंग से उ० प्र० अपार्टमेंट एक्ट, २०१० की धारा १४(२) के अधीन आर० डब्लू० ४० गठित कर ली जो पंजीकृत हो चुकी है।

९. यह कि उ० प्र० अपार्टमेंट एक्ट, २०१० ली धारा १४(१) के अनुसार एक सोसाइटी के परिसर में एक ही रेजीडेंट वैलफेर एसोसिएशन का पंजीकरण किया जा सकता है, जो वैधानिक रूप से पूर्व में पंजीकृत की जा चुकी है, अतः घण्टित

प्रधान सचिव
कार्यालय डिप्टी रजिस्टर
फॉर्म सोसाइटीज तथा विल्डर
लखनऊ मण्डल नियन्त्रा
३०/११/२०२३

प्राप्ति का नियम

१०. यह कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पूर्णता से प्राप्त होने के बावजूद कोई ग्राहकों के जरूरत किया गया है, तथा यह एक जोग स्वर्णवसा आपसे दूर रहे हैं जिससे कि वित्ती अवधि में कैफायती एसोसिएशन को मालवा ना हो और भेटनेवाला तथा अन्य दीजो की आड़ लेवर ऑफिसरों का लगा देखा जाकर यह फूलमीक चर्च कर सके।

अतः उपरोक्त विनुओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री पिन्ध कुमार वर्मा, तथाकार्यित अध्यक्ष हारा आर० डब्ल्यू० ए० पंजीकरण के लिए ऑनलाइन जगा आवेदन को अमान्य कर निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अपार्टमेंट स्थापियों का संघ और उससे सम्बंधित प्राविधान उ० प्र० ०० अपार्टमेंट (निर्माण, स्थापित्व और अनुरक्षण) का संवर्धन अधिनियम, २०१० से अच्छादित होते हैं, तथा एसोसिएशन के पंजीयन की कार्यवाही उक्त अधिनियम, नियम तथा बाय-लॉज के अनुसार की जाती है। अधिनियम के सम्बंधित प्राविधान निम्नवत हैं :-

Section 14 - Association of apartment owners and bye-laws relating thereto-

(1) There shall be an Association of Apartment Owners for the administration of the affairs in relation to the apartments and the property appertaining thereto and for the management of common areas and facilities:

Provided that where any area has been demarcated for the construction of buildings, whether such area is called a block or pocket or by any other name, there shall be a single Association of Apartment Owners in such demarcated area.

(2) It shall be the joint responsibility of the promoter and the apartment owners to form an Association. The promoter shall get the Association registered when such numbers of apartments have been handed over to the owners which is necessary to form an association or 33% of apartments, whichever is more, by way of sale, transfer or possession, provided the building has been completed along with all infrastructure services and completion certificate obtained from the local authority.

(3) In a case, where an association of the apartment owners of a building has not been formed, on the intended date of execution of a deed of apartment in favour of prospective apartment owner, it shall be obligatory for a prospective apartment owner to become member of the association within a period of 4 weeks on receipt of a written intimation about the formation of such association.

(4) Where an association of apartment owners exist on the intended date of transfer of an apartment, it will be obligatory for the prospective apartment owner to become member of such association before execution of a deed of an apartment in his favour,

(5) On formation of the Association of the Apartment Owners under subsection (2) above, the management of the affairs of the apartments regarding their common areas and facilities shall be deemed to be transferred from the promoter to the Association which shall thereupon maintain them;

Provided that till all the apartments are sold or transferred, the promoter shall proportionately share the maintenance cost of common areas and facilities.

अधिनियम में "allottee", "apartment owner" तथा "association of apartment owners" निम्नवत् परिभासित किये गये हैं -

Section 3 - Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires,-

सत्य प्रतिलिपि

5

प्रधान सचिव
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटी तथा घिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

30/11/2023

(b) "occupant" in relation to an apartment means the person to whom such apartment has been allotted, sold or otherwise transferred by the promoter;

(d) "apartment owner" means the person or persons owning an apartment or the promoter or his nominee in case of unsold apartments and an undivided interest in the common areas and facilities appurtenant to such apartment in the percentage specified in the Deed of Apartment and includes the lessee of the land on which the building containing such apartment has been constructed, where the lease of such land is for a period of thirty years or more;

(e) "association of apartment owners" means all the owners of the apartments therein, acting as a group in accordance with the byelaws;

अधिनियम के उपरोक्त प्राविधिक (धारा-11) से यह स्पष्ट है कि अपार्टमेंट और उनसे सम्बद्ध संपत्ति, कॉम्पनी एवं सुविधाओं के प्रबंधन के लिए अपार्टमेंट रखायियों का एक संघ होगा तथा प्रोमोटर और अपार्टमेंट रखायियों का ये संयुक्त दायित्व होगा कि वो संघ बनायेगें। प्रोमोटर ऐसी संख्या में अपार्टमेंट्स जितनी संघ बनाने के लिए आवश्यक हो या अपार्टमेंट का 33% जो भी अधिक हो, उसके द्वारा बिक्री, अंतरण या कब्जा देने के गांधी से स्वामियों को सौप दिए जाने के बाद एसोसिएशन का पंजीयन कराएगा, बशर्ते कि भवन सभी अवसंरचना सेवाओं के साथ पूर्ण कर दिया गया हो और स्थानीय प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

संस्था की ओर से श्री संदीप कुमार पाण्डे, सचिव तथा श्री एल० बी० राय, अध्यक्ष की हैसियत से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए ये अवगत कराया गया है की उ०प्र०अपार्टमेंट एक्ट, 2010 की धारा 14(2) के प्राविधिकों के अंतर्गत प्रोमोटर मेसर्स विराज कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा आर० डब्लू० ४० के गठन व पंजीकरण हेतु पहल न करने एवं इस सम्बन्ध में उनके रवैये को देखते हुए आर० डब्लू० ४० के गठन हेतु निवासियों द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में बिल्डर से ऑपचारिक/अनौपचारिक निवेदन भी किया गया, तत्पश्चात इस सम्बन्ध में बिल्डर को दिनांक 29.11.2021 को एक नोटिस भी दिया गया, किन्तु उक्त पर बिल्डर की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया न आने पर अंततः दिनांक 12.12.2021 को आयोजित साधारण सभा में आर० डब्लू० ४० के गठन का निश्चय किया गया, जिसकी नोटिस बिल्डर को दिनांक 21.12.21 को दी गयी। बिल्डर से कोई जवाब ना मिलने पर दिनांक 30.01.2022 को सभी को हर सभव तरीके से सूचित कर खुले पार्क में आयोजित साधारण सभा में लोकतान्त्रिक एवं पारदर्शी तरीके से आर० डब्लू० ४० का गठन किया गया, जिसकी खबर मुख्य अखबारों में भी प्रकाशित की गयी। बिल्डर को भी ईमेल दिनांक 28.01.2022 के द्वारा साधारण सभा दिनांक 30.01.2022 की मीटिंग की सूचना दी गयी तथा उनसे अपने प्रतिनिधि को भेजने का अनुरोध किया गया, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। दिनांक 30.01.2022 को आयोजित उक्त बैठक में 103 सदस्य उपस्थित थे।

शिकायतकर्ता श्री विनय कुमार वर्मा द्वारा संस्था के पंजीकरण के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की गयी है कि अधिनियम की धारा 14(2) के अनुसार विपक्षीगण द्वारा संस्था के गठन के सम्बन्ध में प्रमोटर मेसर्स विराज कन्स्ट्रक्शन्स को कोई सूचना भी नहीं दी गयी और न ही संस्था के गठन के लिए प्रमोटर का सहयोग लिया गया, जबकि स्थानीय प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद संघ बनाने का दायित्व प्रोमोटर का होता है। उनके द्वारा यह भी आपत्ति की गयी है कि अपार्टमेंट के 04 टावर का पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 26.11.2018 को व 08 टावर का दिनांक 30.12.2021 को स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त होने के पश्चात संघ के गठन की प्रक्रिया की जानी थी, किन्तु विपक्षीगण द्वारा अविधिक तरीके से संस्था का पंजीकरण करा लिया गया।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सचिव
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटी तथा गिट्स
लखनऊ मण्डल

30/11/2023

का की जाती है। याकूबी के बारे में 70 फ्लैट के लिए कुल विक्रीपते फ्लैट्स की संख्या 533 है जिनमें कुल 300 आधासी भिवास कर रहे हैं, अधिक ज्ञान और 0 छलू० ऐ० के घर के लिए नियमकृत 533 सदस्य होने चाहिए जिसके लिए उक्त कंजीकृत संस्था की शुरूआती में इतने 70 फ्लैट्स बहुत कम हैं, जो सामाजिक सम्पा के घर के लिए आवश्यक संडर्जा तरीके से बढ़ाकर दिखाया गया है और सही प्रकार से सदस्य नहीं बनाये गए हैं।

श्री विनय कुमार वर्मा ने अपने अदिनांकित पत्र जो कार्यालय में दिनांक 01.04.2022 को प्राप्त है तथा पत्राकली पर उपलब्ध है, में यह उल्लेख किया है कि, सनब्रीज वन अपार्टमेन्ट्स में कुल 776 फ्लैट्स हैं जिनमें कुल विक्रीपते फ्लैट्स की संख्या 500 है जिनमें कुल 300 आधासी भिवास कर रहे हैं। अधिनियम की धारा 14(2) में यह प्राविधानित है कि, प्रोमोटर ऐसी संख्या में अपार्टमेंट्स जितनी संघ बनाने के लिए आवश्यक हो या अपार्टमेंट का 33% जो भी अधिक है, उसके द्वारा बिक्री, अंतरण या कब्जा देने के माध्यम से स्वामियों को सौंप दिए जाने के बाद एसोसिएशन का पंजीयन कराएगा। श्री विनोद वर्मा के उपरोक्त अभिकथन से यह स्पष्ट है की कुल 776 फ्लैट्स में से विक्रीपते फ्लैट की संख्या 500 थी, जोकि कुल फ्लैट का 64 प्रतिशत से अधिक है तथा अध्यासियों की संख्या 300 है जो कुल फ्लैट की संख्या का 38 प्रतिशत से अधिक है, परन्तु प्रश्नगत संस्था के पंजीकरण में मात्र 70 व्यक्तियों को ही दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संस्था के पंजीकरण में समस्त अपार्टमेन्ट स्वामियों/अध्यासियों को सूचित/समिलित नहीं किया गया तथा अवैधानिक रूप से पंजीकरण कराया गया है।

संस्था का पता अध्यक्ष के व्यक्तिगत फ्लैट के पते पर होने के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार पाण्डे, सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रोमोटर द्वारा कोई भी स्थान आर० छलू० ऐ० के लिए आरक्षित/आवंटित नहीं किये जाने के कारण विवश होकर आर० छलू० ऐ० का पता अध्यक्ष के घर का दिया गया, जो अपार्टमेंट परिसर का ही है, परन्तु उनके द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि उनके द्वारा विलू० से आर०छलू० पर लिये स्थान आरक्षित/आवंटित करने का कोई अनुरोध किया गया था।


यह कि पंजीकृत संस्था की प्रबंधकारिणी समिति/बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में श्री लाल बचन राय, अध्यक्ष, श्री संदीप कुमार पाण्डेय, सचिव, श्री रजत श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य कमशः आकांक्षा शर्मा, डी० एम० श्रीवास्तव के नाम से आज तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है इसके बावजूद उनके द्वारा संस्था की प्रबंधकारिणी में पद प्राप्त कर लिया गया है और अविधिक रूप से संस्था का पंजीकरण करा लिया गया है। उक्त लोग सनब्रीज-1 अपार्टमेंट के महज आवंटी हैं।

प्रोमोटर ऐसी संख्या में अपार्टमेंट्स जितनी संघ बनाने के लिए आवश्यक हो या अपार्टमेंट का 30% जो भी अधिक हो, उसके द्वारा बिक्री, अंतरण या कब्जा देने के माध्यम से स्वामियों को सौंप दिए जाने के बाद एसोसिएशन का पंजीयन कराएगा, परन्तु श्री संदीप कुमार पाण्डेय व अन्य द्वारा नियमानुसार सभी अध्यासियों को समिलित किये बिना ही तथ्यों को छिपाते हुये संस्था का पंजीकरण कराया गया है।

आदेश

अतः उ० प्र० अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुशःषण का संदर्भन) अधिनियम, 2010, मॉडल बाय-लॉज, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पासित अवेशों में दिए गए निर्देश तथा उपरोक्तानुसार उल्लिखित तथ्यों एवं विवेचित बिन्दुओं के आलोक में श्री विनय कुमार वर्मा के द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में उल्लिखित विटु एवं तथ्य,

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सचिव
कार्यालय डीटी रजिस्ट्रेशन
फॉर्म सोसाइटीज तथा फिल्स
लखनऊ मण्डल लज्जम्भक

20/11/2022

लिखा जाना पर संख्या "सनबीज का वपारमेंट रेजीडेंशन" को लगाए एसोसिएशन सनबीज का अपार्टमेंट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, सरकारी के कानूनी द्वारा दिया गया एसोसिएशन का सोसाइटी पंजीकरण आधिकारिक, 1860 की वारा १२ वी के अंतर्गत निरस्त किये जाने का अनुरोध किया था है, को पेशीय पाते हुये कानूनी द्वारा एसोसिएशन, सनबीज का अपार्टमेंट का पंजीकरण को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आधिकारिक की घारा १२(टी)(१)(टी) व (सी) के सहत निरस्त किया जाता है।

दोषक डॉ प्र० अपार्टमेंट इ०टी. २३७० वी वारा १२(टी) के अनुसार एक परिवर में एक ही रेजीडेंट द्वारा केवल एसोसिएशन का पंजीकरण किया जा सकता है, अतः वर्षित डिटी में उक्त प्रकथा एक पंजीकरण निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री पिनय कुमार वर्मा द्वारा सनबीज अपार्टमेंट-१ रेजीडेंट्स वेलफेर एसोसिएशन सनबीज अपार्टमेंट-१ बी०बी०डी० ग्रीन सिटी अयोध्या भारी, लखनऊ का पंजीकृत किये जाने हेतु प्रत्यनुत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.04.2022 के समय में सिवमनुसार कार्यकारी किये जाने के आदेश प्राप्ति किये जाते हैं।

संख्या ५४५४८ < १०१ > I/LUC/0045849
प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

(लोकेश श्रीवास्तव)
डिप्टी रजिस्ट्रार
दिनांक ११.११.२०२३

1. श्री सदीप कुमार पाण्डेय, सचिय सनबीज का अपार्टमेंट रेजीडेंशन वेलफेर एसोसिएशन, सनबीज का अपार्टमेंट, बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
2. श्री पिनय कुमार वर्मा निवासी फ्लैट नं० ९०३, टावर नं० २२, सनबीज का अपार्टमेंट बी०बी०डी० ग्रीन सिटी, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

डिप्टी रजिस्ट्रार

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सचिव
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फौर्म सोसाइटी तथा नियम
लखनऊ बण्डल लखनऊ
30/11/2023